

22 वाँ जबलपुर पशु चिकित्सा महाविद्यालय एलुमनाई एवं 73 वाँ महाविद्यालय स्थापना दिवस का सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आयोजन



जबलपुर कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 8 जुलाई 2021 दिन गुरुवार को नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत 73वाँ पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय का स्थापना दिवस एवं 22वाँ जबलपुर पशुचिकित्सा महाविद्यालय एलुमनाई जिसमें भूतपूर्व एवं अध्ययनरत छात्रों का सादगी पूर्ण कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रातः 10:30 से महाविद्यालय के कांफ्रेंस हॉल में माननीय डॉ. सीता प्रसाद तिवारी जी कुलपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के मुख्य आतिथ्य एवं अभिप्रेरणा से आयोजित हुआ। जिसमें महाविद्यालय में आए मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों माननीय डॉ.आर पी एस बघेल, अधिष्ठाता संकाय, डॉ. आर. के. शर्मा, अधिष्ठाता, डॉ. ए.पी. गौतम, संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, डॉ. श्रीकांत जोशी, कुलसचिव, डॉ. पी.के. सोलंकी, उपाध्यक्ष, जीवीसी एलुमनाई एवं डॉ. देवेन्द्र गुप्ता, सचिव जीवीसी एलुमनाई। पशु चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर एलुमनाई द्वारा नंदी प्रतिमा का पूजन अर्चन के बाद माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किए गए। इसी श्रृंखला में माननीय कुलपति जी एवं अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इसके उपरांत आंसदी ग्रहण करने के पश्चात कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत डॉ. राजेश शर्मा अधिष्ठाता द्वारा किया गया एवं गत वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात् जबलपुर वेटेनरी कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. पी.के. सोलंकी द्वारा उदबोधन प्रस्तुत किया गया साथ ही कार्यक्रम की श्रृंखला में डॉ. देवेन्द्र गुप्ता सचिव जे.व्ही.सी. एलुमनाई ने जे.व्ही.सी. का वार्षिक प्रतिवादन प्रस्तुत करते हुए घोषणा करते हुए बताया की महाविधलय के मेधावी व प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को कुल 19 स्वर्ण पदक जिनमे बी.व्ही.एस.सी की छात्रा अंशिता सिन्हा को 5, स्वेता खरे को 4, चारु शर्मा को 3, जगत भारतद्वज को 2, रश्मि मिश्रा को 1 एवं जागृति सिंह को जूनियर रिसर्च फेलोशिप में अधिकतम अंक अर्जित करने पर 1 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इसी प्रकार एम.व्ही.एस.सी में डॉ. उमा शंकर तिवारी को 1, डॉ.सौरव साहू को 1 एवं डॉ.

स्वेश संजीव बंदिवादेकर को 1 स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रशस्ती पत्र ईमेल द्वारा भेजे गए। तत्पश्चात विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉ. सीता प्रसाद तिवारी जी द्वारा मेधावी छात्र-छात्राओं पदक प्राप्त विजेताओं को बहुत बहुत बधाई ज्ञापित कि गई। साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए, अभिप्रेरित किया की भारत रत्न एवं राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख के आदर्शों को अनुसरण करते हुए हमारे वि.वि. के चहुमुखी विकास में एवं जहां भी जिस क्षेत्र में भी रहें वहां अपनी सेवाएं देते हुए उन्नत पशुपालन के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देकर मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भरता प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र छात्राओं, सेवा निवृत्त प्राध्यापको, प्राध्यापको/ वैज्ञानिकों प्रेस एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया को उपस्थिति सराहनीय रही। इस कार्यक्रम का संचालन डॉ. निधि राजपूत सहा प्राध्यापक पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय जबलपुर, एवं आभार प्रदर्शन डॉ. अंजु नायक, प्राध्यापक व कोषाध्यक्ष जे.व्ही.सी एलुमनाई एसोशिएसन, जबलपुर द्वारा किया गया।

सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी
नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय
जबलपुर